

Q.1 निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए

32

1 फूल झर जाएगा परंतु अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा।

**Ans** संयुक्त वाक्य

2 इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही है।

**Ans** सरल वाक्य

3 अधिकारियों के चेहरे पर हलकी-सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई।

**Ans** संयुक्त वाक्य

4 घर के भीतर स्त्रियाँ गा रही थी और रुपा भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी।

**Ans** संयुक्त वाक्य

5 काकोरी बमकांड हो चुका था।

**Ans** काकोरी बमकांड हो चुका था। - सरल वाक्य

6 अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका श्रम से चलाते हैं।

**Ans** मिश्र वाक्य

7 एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर - उधर देखकर बोली।

**Ans** सरल वाक्य

8 बुद्धिराम को कभी-कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था।

**Ans** सरल वाक्य

9 मोहन के साथ मेरी ऐसी घनिष्टता है जैसे पानी और चीनी।

**Ans** मिश्र वाक्य

10 फूल की गंध घर-घर तक जाएगी।

**Ans** सरल वाक्य

11 वह असलियत इतनी गंदी व धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना पड़े।

**Ans** मिश्र वाक्य

12 सूरज निकला और प्रकाश फैल गया।

**Ans** संयुक्त वाक्य

13 दूसरों से बाहर से केवल झगड़ा हाथ लगता है।

**Ans** सरल वाक्य

14 ताँगेवाला जानता था इसलिए रास्ता मिल गया।

**Ans** मिश्रवाक्य

15 मैंने मोटर खरीदी है और उसकी गुलामी कर रहा हूँ

**Ans** संयुक्त वाक्य

16 तुम्हारी तबीयत कमजोर है तब तक रेहता मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा।

**Ans** मिश्र वाक्य

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

17 रुपाने काकी को कडाई के पास देखा तो क्रोध से जल उठी।

**Ans** मिश्र वाक्य

18 बड़ा मन करता था कि इंपाला गाड़ी चलाएँ।

**Ans** संयुक्त वाक्य

19 फूल को अपना अंत पता है इसलिए वह स्वाभिमान है।

**Ans** मिश्र वाक्य

20 वापस घर आकर फाटक से पहले गाड़ी रोक दी।

**Ans** सरल वाक्य

21 हर ओर से अब वह निराश हो गया था।

**Ans** सरल वाक्य

22 एक दिन मौका मिला तो गाड़ी लेकर निकल पड़े।

**Ans** मिश्र वाक्य

23 जब तुम सही बोलोगे तब मैं बात करूँगा।

**Ans** मिश्रवाक्य

24 मैंने फिर सोचा कि लिखने के सिवा चारा क्या है।

**Ans** मिश्र वाक्य

25 बिना किसी रूकावट या बाधा के चली गई।

**Ans** सरल वाक्य

26 यही जीवन का सत्य भी है।

**Ans** साधारण वाक्य

27 पत्रों का संग्रह भी काफी है लेकिन व्यवस्थित नहीं है।

**Ans** पत्रों का संग्रह भी काफी है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। - संयुक्त वाक्य

28 आपके आने पर स्कूल चलूँगा।

**Ans** सरल वाक्य

29 जब सूर्य निकलेगा तब अँधेरा दूर होगा।

**Ans** संयुक्त वाक्य

30 आजकल खूबसूरती का सवाल बेढब हो गया है।

**Ans** सरल वाक्य

31 सभी धर्म मान्य होंगे और आश्रम में सदाचार का वातावरण होगा।

**Ans** संयुक्त वाक्य

32 आप मेरे यहाँ आए हैं।

**Ans** सरल वाक्य

**Q.2 सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए**

1 उन्होंने पूछने को कहा। (विधानार्थक वाक्य)

**Ans** आप पूछिए।

2 तुम्हारे आने पर मैं भी मुंबई जाऊँगा। (मिश्र वाक्य)

**Ans** जब तुम आओगे, तब मैं मुंबई जाऊँगा।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

3 साहित्यकार होने के कारण साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। (संयुक्त वाक्य)

**Ans** मैं साहित्यकार हूँ इसलिए साहित्यचिंतन में विश्वास रखता हूँ।

4 परिश्रम करने पर ही सफलता मिलेगी। (मिश्र वाक्य)

**Ans** जब तुम परिक्षम करोगे, तब सफलता मिलेगी।

5 मैं घर जाना चाहता हूँ। (प्रश्नार्थक वाक्य)

**Ans** क्या मैं घर जाना चाहता हूँ ?

6 ये अस्त्र - शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। (विधानार्थक वाक्य)

**Ans** ये अस्त्र - शस्त्र बढ़ाओ।

7 मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। (सरल वाक्य)

**Ans** मैं तो कुछ भूल गया।

8 आज अच्छी धूप निकली है। (निषेधात्मक वाक्य)

**Ans** आज बुरी धूप नहीं निकली है।

9 आखिर वे बड़े बेहया हैं। (प्रश्नार्थक वाक्य)

**Ans** आखिर वे बड़े बेहया क्यों हैं?

10 परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। (मिश्रवाक्य)

**Ans** जब परिश्रम करते हो तब सफलता मिलती है।

11 आज तो बड़ी तेज ठंड है। (विस्मयार्थक वाक्य)

**Ans** ओफ़! आज तो बड़ी तेज ठंड है।

12 गांधीजी का आदेश मानने के लिए मैं घर से निकल पड़ा। (संयुक्त वाक्य)

**Ans** गांधीजी का आदेश मानना था, इसलिए मैं घर से निकल पड़ा।

13

**Ans** आज की राजनीति में स्थिरता के अभाव के कारण मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा।

14 तुम्हारे मेरे घर आने पर मैं स्कूल चलूँगा। (मिश्रवाक्य)

**Ans** जब तुम मेरे घर आओगे तब मैं स्कूल चलूँगा।

15 मनुष्य उसे घटने देगा। (निषेधात्मक वाक्य)

**Ans** मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा।

16 तुम्हें अपने शिक्षक की बात माननी चाहिए। (आज्ञार्थक वाक्य)

**Ans** तुम अपने शिक्षक की बात मानो।

17 जहाँ चाह होती है, वहाँ राह निकलती है। (सरल वाक्य)

**Ans** चाह होने पर राह निकलती है।

18 उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर डॉक्टर साहब को आने की खबर दी। (संयुक्त वाक्य)

**Ans** उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि 'डॉक्टर साहब आ रहे हैं।'

19 क्या तुम आगरा जा रहे हो ? (सरल वाक्य)

**Ans** तुम आगरा जा रहे हो।

20 सूखा पड़ने की वजह से खेती अच्छी नहीं हुई। (विधानार्थक वाक्य)

**Ans** अच्छी खेती न होने का कारण सूखा पड़ता था।

21 आज बहुत गरमी है। (विस्मयार्थक वाक्य)

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

**Ans** ओह ! आज बहुत गर्मी है ।

**22** बच्चे हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं । (निषेधात्मक वाक्य)

**Ans** बच्चे हमेशा असत्य के रास्ते पर नहीं चलते हैं ।

**23** उसने हथियार बनाने के लिए हड्डियों का सहारा लिया । (सरल वाक्य)

**Ans** उसने हड्डियों से हथियार बनाया ।

**24** तुम्हें शीघ्रता से जाना चाहिए । (विधानार्थक वाक्य)

**Ans** तुम शीघ्रता से जाओ ।

**25** गली में आसमान दिखलाई पड़ता है । (निषेधात्मक वाक्य)

**Ans** गली में आसमान अदृश्य नहीं होता है ।

**26** तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए । (आज्ञार्थक वाक्य)

**Ans** तुम अपना काम खुद करो ।

**27** आप अनुरागजी हैं । (प्रश्नार्थक वाक्य)

**Ans** क्या आप अनुरागजी है?

**28** अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय होता है । (संयुक्त वाक्य)

**Ans** वह पिता बड़ा दयनीय होता है, जो अल्पज्ञ होता है ।

**Q.3 वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए**

**1** मेर पहला कहानी 'प्रायश्चित' इसकी प्रमाण है।

**Ans** मेरी पहली कहानी 'प्रायश्चित' इसका प्रमाण है।

**2** तुम बहुत थक गया होगा।

**Ans** तुम बहुत थक गए होंगे।

**3** फूल का डाली को गोद में खिलाई।

**Ans** फूल को डाली ने गोद में खिलाया।

**4** एक तरफ नरक है और दूसरे तरफ तुम्हारी जिम्मे थोड़ा सा खर्च।

**Ans** एक तरफ नरक है तो दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा- सा खर्च।

**5** आचार्य अपनी शिष्यों को मिलना चाहते थे।

**Ans** आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे।

**6** हमने माता का दर्शन किया।

**Ans** हमने माता के दर्शन किए।

**7** लेखक ने अभिनेत्री की घमंड तोड़ी।

**Ans** लेखक ने अभिनेत्री का घमंड तोड़ा।

**8** एक कवि सम्मेलन पर दोनों साथ गया।

**Ans** एक कविसम्मेलन में दोनों साथ गए।

**9** राजकुमार की कानों पर स्वर पड़ी।

**Ans** राजकुमार के कानों पर स्वर पड़े।

**10** इस बार नयी धोती दुँगी ।

**Ans** इस बार नई धोती दुँगी ।

**11** उनका एक आँख पूछ रहा था।

**Ans** उनकी एक आँख पूछ रही थी ।

**12** जनरल वार्ड की तो एक नियम होती है ।

**Ans** जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है ।

**13** इसका बाद वे अलाव के पास बैठ गया।

**Ans** इसके बाद वे अलाव के पास बैठ गए।

**14** माँ के आँखों में आँसू आई।

**Ans** माँ की आँखों में आँसू आए।

**15** और क्या ऐसे क्षण को जन्म देने का कला आप जानते हो?

**Ans** और क्या ऐसे क्षण को जन्म देने की कला आप जानते हैं।

**16** दोनों शिकारियों नीचे उतरा।

**Ans** दोनों शिकारी नीचे उतरे।

**17** सुनकर राष्ट्रपति ने हँसी आ गया।

**Ans** सुनकर राष्ट्रपति को हँसी आ गई।

**18** उन्होंने नहाने के लिए गरम पानी ग्यारह बजे पहुँचाने का आदेश थी।

**Ans** उनके नहाने के लिए गरम पानी ग्यारह बजे पहुँचाने का आदेश था।

**19** फूलों का गंध वायु के लहरों पर सवार थी।

**Ans** फूलों की गंध वायु की लहरों पर सवार थी।

**20** जूते निकाल दो ।

**Ans** जूते उतार दो ।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

**21** ब्याज का दर रोज गिर रहा था ।

**Ans** ब्याज की दर रोज गिर रही थी ।

**22** समय से मेरा आँखें नहीं खुलता ।

**Ans** समय से मेरी आँखें नहीं खुलती ।

**23** अश्वरोही का सारा शरीर का रुधिर उबल रहा था।

**Ans** अश्वरोही के सारे शरीर का रूधिर उबल रहा था।

**24** कवि का आत्मा तृप्त हो गया।

**Ans** कवि की आत्मा तृप्त हो गई।

**25** वे तो सिर्फ बाहरी दिखावट के ही छाता है ।

**Ans** वे तो सिर्फ बाहरी दिखावट के ही छाते है ।

**26** आज के शानदार मुलाकात के बाद बहुत आनंद मिली।

**Ans** आज की शानदार मुलाकात के बाद बहुत आनंद मिला।

**27** सही और संपूर्ण साहित्य वह है, जिसकी हम दोनों आँखों से देखती है ।

**Ans** सही और संपूर्ण साहित्य वह है, जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं ।

**28** संन्यासी ने उनका पीठ में कृपापूर्वक हाथ फेरा।

**Ans** संन्यासी ने उनकी पीठ पर कृपापूर्वक हाथ फेरा।

**29** फूल से बिक जाने को मारना बेहतर लगता है।

**Ans** फूल को बिक जाने से मरना बेहतर लगता है।

**30** मेहमान मंडली अभी बैठा हुआ था।

**Ans** मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी।

**31** सन्यासी की एक छोटा - सा कुटी थी।

**Ans** संन्यासी की एक छोटी - सी कुटी थी।

**32** करोड़ों आदमी आज भूख से मर रही हैं।

**Ans** करोड़ों आदमी आज भूख से मर रहे हैं।

**33** किसी का आवाज नहीं सुनाई देता।

**Ans** किसी की आवाज नहीं सुनाई देती।

**34** पंडित परमसुख का नाक सिकुड़ गया।

**Ans** पंडित परमसुख की नाक सिकुड़ गई।

**35** अभिनेत्री ने लेखक की मजाक उड़ाती है।

**Ans** अभिनेत्री लेखक का मजाक उड़ाती है।

**36** ये पशु बड़ा भयानक है।

**Ans** ये पशु बड़े भयानक हैं।

**37** प्राण को मन से अलग करनी पड़ेगी।

**Ans** प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा

**38** मेरा विश्वास और भी दृढ़ होती जा रही है।

**Ans** मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है।

**39** रिश्वत भ्रष्टाचार का छोटा बहन है।

**Ans** रिश्वत भ्रष्टाचार की छोटी बहन है।

**40** मुझे जीवन का सहज और खुला ढंग से जीना पसंद है।

**Ans** मुझे आनंद में सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है।

**41** यकायक कोठे पर दो आदमियों दिखलाई पड़ा।

**Ans** यकायक कोठे पर दो आदमी दिखलाई पड़े।

**42** सैनिकों के एक दल विश्राम कर रहे है।

**Ans** सैनिकों का एक दल विश्राम कर रहा है।

**43** मोटर मेरा भारी दामों से खरीद चुका है।

**Ans** मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है।

**44** हम लोक वापस आते है अभी ।

**Ans** हम लोग वापस आते हैं अभी ।

**45** वे टिकता है बहुत ।

**Ans** वे टिकते है बहुत ।

**46** बुद्धिराम के लड़के की तिलक आई थी।

**Ans** बुद्धिराम के लड़के का तिलक आया था।

**47** रामू हा बहू इसके बाद पान लगाने में लग गया।

**Ans** रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई।

**48** फूल अपना सौगंध नहीं बेचेगी।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

**Ans** फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा।

**49** कबरी के हत्या के लिए उसने कमर कस लिया।

**Ans** कबरी के हत्या के लिए उसने कमर कस ली।

**50** इससे आपका प्रजा का हित होगी।

**Ans** इससे आपकी प्रजा का हित होगा।

**51** पाँच मिनट का पिटारी खाली हो गया।

**Ans** पाँच मिनट में पिटारी खाली हो गई।

**52** आवाज बहू के कान में पहुँचा।

**Ans** आवाज बहू के कानों में पहुँची।

**53** उसने कही हुई बात बराबर हैं।

**Ans** उसकी कही हुई बातें बराबर हैं।

**54** माधव शुक्ल हमारे यहाँ आती थी।

**Ans** माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे।

**55** उन्होंने कबूतरबाजी की मैच देखी।

**Ans** उन्होंने कबूतरबाजी का मैच देखा।

**56** शीतल, मंद, सुगंध वायु चल रही थी।

**Ans** शीतल, मंद, सुगंधित वायु चल रही थी।

**57** लोग स्वदेश भक्ति का चर्चा करते हैं।

**Ans** लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं।

**58** जिंदगी संघर्ष से भरा हुआ है।

**Ans** जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है।

**59** बिल्ली का हत्या बहू से हो गया।

**Ans** बिल्ली की हत्या बहू से हो गई।

**60** आप लोग बड़ा आदमी ठहरा।

**Ans** आप लोग बड़े आदमी ठहरे।

**61** अश्वरोही उससे देख बहुत अचंभित हुई।

**Ans** अश्वरोही उसे देख बहुत अचंभित हुआ।

**62** प्रकृतिसौंदर्य की जादू काम कर गई।

**Ans** प्रकृतिसौंदर्य का जादू काम कर गया।

**63** मेरा दोस्त का टूट गया है टाँग।

**Ans** मेरे दोस्त की टूट गई है टाँग।

**64** रात आधी से अधिक व्यतीत हो चुका था।

**Ans** रात आधी से अधिक व्यतीत हो चुकी थी।

**65** इस बात असहयोग आंदोलन की समय की है।

**Ans** यह बात असहयोग आंदोलन के समय की है।

**66** चंद्रमा भी उदय हो गई थी।

**Ans** चंद्रमा भी उदय हो गया था।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

- 67** संस्था की भार आनेवाला बहनें उठा सकेंगे ।  
**Ans** संस्था का भार आनेवाली बहनें उठा सकेंगी ।
- 68** वे तो बस आया और बरतन उठाकर चला ही गए ।  
**Ans** वे तो बस आए और बरतन उठाकर चले ही गए ।
- 69** यहाँ का न्यायप्रियता द्रव्य पर निर्भर हैं ।  
**Ans** यहाँ की न्यायप्रियता द्रव्य पर निर्भर है ।
- 70** ' दीपजले शंख बजे ' यह प्रभाकर जी ने लिखा किताब है ।  
**Ans** ' दीप जले शंख बजे ' यह प्रभाकर जी द्वारा लिखी किताब है ।
- 71** कान बेकार खड़ी रहती हैं ।  
**Ans** कान बेकार खड़े रहते है ।
- 72** घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है ।  
**Ans** घर में तख्ते के रखे जाने की आवाज आती है ।
- 73** उनका एक आँख पूछ रहा था ।  
**Ans** उनकी एक आँख पूछ रही थी ।
- 74** 1921 से आंदोलन तेज हो गई थी ।  
**Ans** 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे ।
- 75** करामत अली गाय अपनी घर लाई ।  
**Ans** करामत अली गाय अपने घर लाए ।
- 76** तुम्हारा बात ठीक हैं ।  
**Ans** तुम्हारी बात ठीक है ।
- 77** शाहनी दीन – रात दर्द से कराहती रहती थी ।  
**Ans** शाहनी दिन – रात दर्द से कराहती रहती थी ।
- 78** आपने तो पत्रों की बहुत संकलन की है ।  
**Ans** आपने तो पत्रों का बहुत संकलन किया है ।
- 79** वही घर छोड़कर गुरुद्वारा में जमा हो रहा था ।  
**Ans** वही घर छोड़कर गुरुद्वारे में जमा हो रहा था ।
- 80** मैं जंगल में जाकर हिंदुओं की साथ ध्यान करेगा ।  
**Ans** मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूँगा ।
- 81** उनकी शब्द मेरी कानों में गूँजन लगते हैं ।  
**Ans** उनके शब्द मेरे कानों में गूँजने लगते हैं ।
- 82** इस वर्ष बड़ा भीषण गर्मी पड़ रहा था ।  
**Ans** इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी ।
- 83** मौसम तो आती-जाती रहेगी ।  
**Ans** मौसम तो आता-जाता रहेगा ।
- 84** ऐसी आखेट करो जिससे तुम्हारे आत्मा को शांति मिले ।  
**Ans** ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले ।
- 85** हम चारों ही वहाँ अकेला था ।

**KIRAN TUTORIALS**  
*Where Success begins...*



**Ans** हम चारों ही वहाँ अकेले थे।

**86** उन दिनों बापू का हिंदी अच्छा नहीं था।

**Ans** उन दिनों बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी।

**87** जनरल वार्ड की तो एक नियम होती है।

**Ans** जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है।

**88** यहाँ की घी बहुत शुद्ध होती है।

**Ans** यहाँ का घी बहुत शुद्ध होता है।

**89** जगत की सब रहस्य का द्वार प्रेम ही है।

**Ans** जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है।

**90** उसका पग पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता।

**Ans** उसके पग पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते।

**91** काकी ने पिटारी का फिर टटोली।

**Ans** काकी ने पिटारी को फिर टटोला।

**92** लगनवाली व्यक्ति कटु बोलती हैं।

**Ans** लगनवाले व्यक्ति कटु बोलते हैं।

**93** भाषा ईश्वर का बड़ा देन है।

**Ans** भाषा ईश्वर की बड़ी देन है।

**94** ऐसी ही काम मैने सूचित की है।

**Ans** ऐसा ही काम मैने सूचित किया है।

**95** सास अपना बेटी को भी ले आई है।

**Ans** सास अपनी बेटी को भी ले आई है।

**96** वे बाजार में कबूतरबाजी का मैच देख रहा था।

**Ans** वे बाजार में कबूतरबाजी का मैच देख रहे थे।

**97** मुझे मेरी स्कूल पसंद है।

**Ans** मुझे अपना स्कूल पसंद है।

**98** क्रोध से उसकी नेत्र लाल हो गईं।

**Ans** क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए।

**99** तारों का नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स मँगाकर रखी है।

**Ans** तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स मँगाकर रखे है।

**100** जो महिला आएगा वह अपनी व्यवस्था करके आएगा।

**Ans** जो महिला आएगी वह अपनी व्यवस्था करके आएगी।

**101** इटली की देशभक्त मेजिनी उन दिनों निर्वासित था।

**Ans** इटली के देशभक्त मेजिनी उन दिनों निर्वासित थे।

**102** वहाँ बैठकर लिखा जाए, तो बड़ी मजा रहे।

**Ans** वहाँ बैठकर लिखा जाए, तो बड़ा मजा रहे।

**103** फूल पंखुरी-पंखुरी झर जाएगी।

**Ans** फूल पंखुरी- पंखुरी झर जाएगा।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

104 कितना कंगाल है हम |

Ans कितने कंगाल है हम |

Q.4 निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए

93

1 मालिन

Ans फूल को **मालिन** तोड़ लेगी।

2 किंवदंतियाँ

Ans रक्षाबंधन पर्व के संदर्भ में कई **किंवदंतियाँ** प्रचलित हैं।

3 अस्तित्व

Ans मनुष्य के गुण उसके **अस्तित्व** का बयान करते हैं।

4 अनुराग

Ans परिवार के सदस्यों के प्रति दादाजी का **अनुराग** बढ़ता ही गया।

5 सिखावन

Ans गुरुओं के **सिखावन** आज भी मुझे सही रास्ता दिखाते रहते हैं।

6 विनोदार्थ

Ans **विनोदार्थ** पशुओं की हिंसा करना सर्वथा पाप है।

7 खंडित

Ans हाथ से नीचे गिरते ही काँच का गिलास **खंडित** हो गया।

8 आखेट

Ans प्राचीन काल में राजाओं - महाराजाओं को **आखेट** करने का शौक हुआ करता था।

9 समाधान

Ans अगर समस्याएँ हैं तो उनके **समाधान** भी हैं।

10 अलौकिक

Ans कश्मीर का **अलौकिक** दृश्य देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

11 व्यंग्यबाण

Ans रत्नावली के **व्यंग्यबाण** से आहत होकर तुलसीदास रामभक्ती में डूब गए।

12 न्यायप्रियता

Ans न्यायाधीश की **न्यायप्रियता** देखकर दरबारी संतुष्ट हो गए।

13 रुधिर

Ans समय पर **रुधिर** न मिलने के कारण रोगी की मौत हो गई।

14 परिश्रम

Ans **परिश्रम** सफलता की कुंजी है।

15 कर्कश

Ans **कर्कश** स्वर किसी भी मानव को पसंद नहीं होता है।

16 पर्वतीय

Ans **पर्वतीय** स्थल सभी को आकर्षित करते हैं।

17 विश्वविख्यात

Ans अब्दुल कलाम राष्ट्रपित के साथ - साथ एक **विश्वविख्यात** वैज्ञानिक भी थे।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

18 देन

**Ans** आधुनिक प्रगति विज्ञान की ही देन है।

19 आतिथ्य

**Ans** बारतियों का आतिथ्य पूरे सम्मान के साथ किया गया।

20 बुद्धिमत्ता

**Ans** बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता देखकर श्रोता प्रभावित हुए बिना न रह सके।

21 आगमन

**Ans** मेहमानों के आगमन से घर में रौनक आ गई।

22 मुहल्ले

**Ans** हमारे मुहल्ले में शिवमंदिर है।

23 कर्तव्यपरायणता

**Ans** नौकर की कर्तव्यपरायणता देखकर मालिक की खुशी का ठिकाना न रहा।

24 छायादार

**Ans** वृक्ष अगर छायादार हो तो पथिक उसकी छाया में आराम करते हैं।

25 श्रद्धा

**Ans** पूरी श्रद्धा के साथ भक्त भगवान की पूजा कर रहा था।

26 उद्योग

**Ans** उद्योग के क्षेत्र में बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है।

27 खद्योत

**Ans** आजकल के कवि कभी - कभी खद्योत के समान प्रकाश करते हैं।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

28 मर्माहत

**Ans** रत्नावली के वचनों से मर्माहत होकर तुलसीदास घर छोड़कर चले गए।

29 असहयोग

**Ans** परिवार के असहयोग के बावजूद राजन ने डॉक्टर बनने में सफलता प्राप्त कर ली।

30 चिरस्थायी

**Ans** शिवाजी महाराज के कार्य चिरस्थायी रहेंगे।

31 धर्म - कर्म

**Ans** वेदों में धर्म - कर्म के बारे में अच्छी तरह समझाया गया है।

32 मालिन

**Ans** फूल को मालिन तोड़ लेगी।

33 जिन्स

**Ans** माँ महीने में एक बार घर के लिए जिन्स मँगवा लेती है।

34 पदोन्नति

**Ans** मुझे नौकरी में पदोन्नति मिली है।

35 सुदूर

**Ans** महाराष्ट्र के सुदूर अंचल में एक गाँव है अनंतपुर।

36 निर्वासित

**Ans** राजा ने आदेश दिया कि अपराधी को राज्य से **निर्वासित** कर दिया जाए।

**37** आफत

**Ans** मानव अपनी लापरहवाही के कारण आफत में आ सकता है।

**38** स्थगित

**Ans** हड़ताल के कारण परिक्षाएँ **स्थगित** की गईं।

**39** सार्वजनिक

**Ans** **सार्वजनिक** स्थानों पर हमें बहुत सचेत रहना चाहिए ताकि कोई नुकसान न हो जाय।

**40** खुदारी

**Ans** फूल अपनी **खुदारी** नहीं छोड़ेगा।

**41** उन्मत्त

**Ans** **उन्मत्त** हाथी के रास्ते में जो भी आया, उसे जान से हाथ धोना पड़ा

**42** जायदाद

**Ans** मुंबई में अचल **जायदाद** बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।

**43** पतझड़

**Ans** फूल **पतझड़** से नहीं घबराता है।

**44** सामग्री

**Ans** पूजा की सारी **सामग्री** की तैयारी कर ली गई।

**45** आस्था

**Ans** भारत में ईश्वर के प्रति लोगों शहरी **आस्था** है।

**46** अश्वरोही

**Ans** **अश्वरोही** के चेहरे पर स्पष्ट थकान दिख रही थी।

**47** व्याकुल

**Ans** पत्नी के मुँह से तलाक लेने की बात सुनकर पति **व्याकुल** हो उठा।

**48** चेष्टा

**Ans** मोहन संकट से निकलने की **चेष्टा** कर रहा है।

**49** बेसुध

**Ans** शरीर से बहुत सारा खून बह जाने के कारण सैनिक **बेसुध** होकर गिर पड़ा।

**50** खुदारी

**Ans** फूल अपनी **खुदारी** नहीं छोड़ेगा।

**51** कीर्ति

**Ans** भारत की **कीर्ति** संपूर्ण विश्व में बड़ी तेजी से फैल रही है।

**52** दिलचस्प

**Ans** आस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुकाबला बड़ा **दिलचस्प** रहा।

**53** रासायनिक

**Ans** **रासायनिक** प्रतिक्रियाओं से दवाएँ बनती है।

**54** दाँव

**Ans** वकील ने ऐसा **दाँव** लगाया कि अपराधी जेल जाने बच गया।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

55 आत्मसाक्षात्कार

Ans लंबी साधना के बाद गौतम बुद्ध को **आत्मसाक्षात्कार** प्राप्त हुआ था।

56 पृथक

Ans बंगला देश पाकिस्तान से **पृथक** होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।

57 खींच - तान

Ans जिंदगी में उतार - चढ़ाव और **खींच - तान** तो चलती ही रहती है।

58 प्रकाशित

Ans अखबार में समाचार **प्रकाशित** होते हैं।

59 भ्रष्टाचार

Ans चारों ओर **भ्रष्टाचार** फैला है।

60 दृष्टिगोचर

Ans ताजमहल का गुंबद दूर से ही **दृष्टिगोचर** होता है।

61 गह्वर

Ans हिमालय के **गह्वरों** में ऋषि - मुनि तपस्या करते रहते हैं।

62 सहिष्णुता

Ans गांधीजी के व्यक्तित्व में **सहिष्णुता** कूट - कूट कर भरी हुई थी।

63 अवश्य

Ans तुम **अवश्य** झूठ बोल रहे हो।

64 दुर्लभ

Ans **दुर्लभ** लक्ष्य को भी लगन और श्रम से प्राप्त किया जा सकता है।

65 रूआँसी

Ans सास की डाँट खाकर बहू **रूआँसी** हो गई।

66 समृद्ध

Ans पं. रामचंद्र शुक्ल हिंदी के **समृद्ध** साहित्यकार थे।

67 पालतू

Ans **पालतू** पशु मनुष्य के अच्छे मित्र होते हैं।

68 असलियत

Ans तुम चोर की असलियत नहीं जानते हो।

69 दार्शनिक

Ans सुकरात एक प्रसिद्ध **दार्शनिक** थे।

70 व्यक्तित्व

Ans मानव को अपने **व्यक्तित्व** के विकास के लिए हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

71 पर्णविहीन

Ans कई वृक्ष ऐसे हैं जो साल में एक बार **पर्णविहीन** हो जाते हैं।

72 दगाबाजी

Ans विभीषण की **दगाबाजी** के कारण रावण का सर्वनाश हो गया।

73 आध्यात्मिक

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

**Ans** भारतीय **आध्यात्मिक** गुरुओं को विदेश में बहुत सम्मान दिया जाता है।

**74** निःशब्द

**Ans** **निःशब्द** पशु भी अपनी संवेदना प्रकट करते है।

**75** लड़खड़ाते

**Ans** शराबी नशे में था इसलिए **लड़खड़ाते** हुए आगे बढ़ रहा था।

**76** आंदोलन

**Ans** गांधीजी ने असहयोग **आंदोलन** चलाया।

**77** मौका

**Ans** जीवन में जब भी **मौका** मिले, उसका सही उपयोग करना चाहिए।

**78** पत्तल

**Ans** प्राचीन काल में **पत्तल** पर खाना परोसा जाता था।

**79** ब्राह्ममुहूर्त

**Ans** **ब्राह्ममुहूर्त** में उठकर छात्रों को अध्ययन करना चाहिए।

**80** सराहनीय

**Ans** मनुष्य अपने **सराहनीय** कार्यों के लिए जाना जाता है।

**81** अट्टालिका

**Ans** **अट्टालिका** देखकर ऐसा लगता था मानो इसमें कोई रईस व्यक्ती रहता हैं।

**82** फिलहाल

**Ans** फिलहाल मैं चुपचाप बैठा हूँ।

**83** संघर्ष

**Ans** जिसका जीवन **संघर्ष** से भरा हो, वह व्यक्ती परिपूर्ण होता है।

**84** असालियत

**Ans** **असालियत** नहीं जानते हो।

**85** अर्धवृत्ताकार

**Ans** इंद्रधनुष का स्वरूप **अर्धवृत्ताकार** होता है।

**86** समालोचक

**Ans** पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उत्कृष्ट **समालोचक** थे।

**87** कृतज्ञता

**Ans** शिक्षक के प्रति **कृतज्ञता** प्रकट करते हुए उसकी आँखे भर आई।

**88** पतझड़

**Ans** फूल **पतझड़** से नहीं घबराता है।

**89** प्रवास

**Ans** भारत में रेलगाड़ी से **प्रवास** करना अर्थात युद्ध पर जाना हैं।

**90** सुसज्जित

**Ans** अस्त्र - शस्त्र से **सुसज्जित** सैनिक सीमा पर पहरा देते रहते हैं।

**91** नहीं

**Ans** तो – तुम आराम करो नहीं . तो बीमार हो जाओगे।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

92 मध्याह्न

**Ans** गर्मी के महीनों में **मध्याह्न** में घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है।

93 अवलंबित

**Ans** मानव की सफलता उसके परिश्रम पर **अवलंबित** हैं।

**Q.5 निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूँढ़कर उसका भेद लिखिए**

84

1 हमको फाँसी चढ़ाओ, जल्दी करो।

**Ans** जल्दी - क्रियाविशेषण अव्यय

2 मैनेजर वहीं मँडरा रहा था।

**Ans** वहीं - क्रियाविशेषण अव्यय

3 फूल की गंध हवा के साथ घर-घर जाएगी।

**Ans** के साथ - संबंध सूचक अव्यय

4 इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होते।

**Ans** नहीं - क्रियाविशेषण अव्यय

5 वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा।

**Ans** वह भारी कदमों से **आगे** बढ़ने लगा। - क्रिया विशेषण अव्यय।

6 संस्था चलाने का भार बहनें उठाएँगी क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी।

**Ans** क्योंकि - समुच्चयबोधक अव्यय

7 वाह – वाह ! हम मैच जीत गए।

**Ans** वाह – वाह ! – विस्मयादिबोधक अव्यय

8 चिड़िया इधर - उधर फुदकती हैं।

**Ans** इधर - उधर - क्रिया विशेषण अव्यय

9 मैंने देखा कि पिताजी आ रहे हैं।

**Ans** कि – समुच्चयबोधक अव्यय

10 साधु नदी की तरफ चला गया।

**Ans** तरफ –संबंधसूचक अव्यय

11 अरे ! गऊशाला यहाँ से दो किलोमीटर दूर है।

**Ans** **अरे** ! गऊशाला यहाँ से दो किलोमीटर दूर है। - **विस्मयादिबोधक अव्यय**

12 वाह – वाह ! खूब सोचा आपने !

**Ans** **वाह – वाह** ! खूब सोचा आपने ! - **विस्मयादिबोधक अव्यय**।

13 बहन से परिचय के बाद उनकी शक्ति कुशलता और मर्यादा का मुझे ख्याल है।

**Ans** के बाद - संबंध सूचक अव्यय और समुच्चयबोधक अव्यय

14 अबे ! तू क्यों आ गया ?

**Ans** अबे ! - विस्मयादिबोधक अव्यय

15 किसका भरोसा करू - ईमान का या बेईमान का?

**Ans** या - समुच्चयबोधक अव्यय

16 पलाश की फलियाँ पत्तियों के समान होती हैं।

**Ans** समान - संबंधसूचक अव्यय

17 हाय ! मुझे, बेकरूर को फाँसी देते हैं।

**Ans** हाय - विस्मयादिबोधक अव्यय

18 वाह | कैसी सुगंध है।

**Ans** विस्मयार्थक

19 हमारी शादी में चढावे के नाम पर सिर्फ पाँच ग्राम के गहने आए थे।

**Ans** के नाम - संबंधसूचक अव्यय

20 कहाँ चले गए थे?

**Ans** कहाँ - क्रिया विशेषण अव्यय।

21 मैं बहुत खुश हूँ पर मेरे कुरते कहाँ है ?

**Ans** पर - समुच्चयबोधक अव्यय

22 पढ़ाई की वजह से चश्मा लगा गया।

**Ans** वजह- संबंधसूचक अव्यय

23 अबे, समझा क्या? चपरासी ने कहा।

**Ans** अबे - विस्मयादिबोधक अव्यय

24 कुछ लेना हो तो ले लें।

**Ans** तो - समुच्चयबोधक अव्यय

25 आपकी वजह से मुझे डाँट पड़ी।

**Ans** वजह – संबंधसूचक अव्यय

26 उनके लिए खास भोजन बना था।

**Ans** लिए - संबंधसूचक अव्यय

27 इनकी लंबाई लगभग 1.25 सेंमी होती है।

**Ans** लगभग - क्रियाविशेषण अव्यय

28 उमा सहसा चुप हो जाती है।

**Ans** उमा सहसा चुप हो जाती है। - क्रिया विशेषण अव्यय

29 चाची, माँ के पास चली गई।

**Ans** चाची, माँ के पास चली गई। - संबंधसूचक अव्यय

30 नेहरूजी की माँ के पास कुछ कश्मीरी लोग आते थे।

**Ans** के पास - संबंधसूचक अव्यय

31 हवा धीरे – धीरे बह रही थी

**Ans** धीरे – धीरे - क्रियाविशेषण अव्यय

32 गाय को घर के सामने खूँटे से बाँधा।

**Ans** गाय को घर के सामने खूँटे से बाँधा। - संबंधसूचक अव्यय

33 इसके बाद कोई नहीं आएगा।

**Ans** बाद – संबंधसूचक अव्यय

34 काश, इन पहाड़ों में मिर्ची के बाग होते।

**Ans** काश - विस्मयादिबोधक अव्यय

35 मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...



**Ans** मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी।

कि - समुच्चयबोधक अव्यय  
आज फिर - क्रियाविशेषण अव्यय

**36** जरा इसे भी तो मुँह खोलना चाहिए।

**Ans** जरा - क्रिया विशेषण अव्यय

**37** होटल में यह भोजन हमेशा चलने लगा।

**Ans** हमेशा - क्रियाविशेषण अव्यय

**38** ये चर्चिल और मजबूत होते हैं।

**Ans** और - समुच्चयबोधक अव्यय

**39** राजा को नौकर लोग फाँसी पर चढ़ा देते हैं।

**Ans** पर - अधिकरण कारक

**40** चाहे सौ फागुन बिक जाँ पर मैं गंध नहीं बेचूँगा।

**Ans** पर - समुच्चयबोधक अव्यय

**41** कुछ मालूम पड़ा कि क्या बात है।

**Ans** कि - समुच्चयबोधक अव्यय

**42** अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है।

**Ans** अभी, कितना - क्रियाविशेषण अव्यय

**43** नहीं ! हमको हुक्म है।

**Ans** नहीं - विस्मयादिबोधक अव्यय

**44** आपने मेरे साथ दगा किया।

**Ans** साथ - संबंधसूचक अव्यय

**45** मैं तो जाता हूँ पर सच कहे जाता हूँ।

**Ans** पर - समुच्चयबोधक अव्यय

**46** और - बाप और बेटे रसगुल्ले खा रहे थे।

**Ans** और - समुच्चयबोधक अव्यय

**47** आप कल या परसों मेरे घर आ जाना।

**Ans** या - समुच्चयबोधक अव्यय

**48** फूल की गंध हवा के साथ घर-घर जाएगी।

**Ans** के साथ - संबंध सूचक अव्यय

**49** बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भाँति बैठी थी।

**Ans** की भाँति - संबंध सूचक अव्यय

**50** तुम नीचे क्यों बैठे हो ?

**Ans** नीचे - क्रियाविशेषण अव्यय

**51** आपको विलायती चाप पसंद है या हिंदुस्तानी ?

**Ans** आपको विलायती चाप पसंद है या हिंदुस्तानी ? - समुच्चयबोधक अव्यय

**52** ओ! नीलाम लगाने वालो !

**Ans** ओ! - विस्मयादि बोधक अव्यय

**53** उन्होंने मुझे धीरे - धीरे हिलाना शुरू किया।

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

**Ans** उन्होंने मुझे धीरे – धीरे हिलाना शुरू किया | - क्रियाविशेषण अव्यय

**54** आश्रम में स्वालंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए |

**Ans** उतना - क्रियाविशेषण

**55** वे टोकरी से अलग हो गए।

**Ans** अलग - संबंधसूचक अव्यय।

**56** वह नींद में भी कुछ बुदबुदा रही थी।

**Ans** भी - क्रियाविशेषण अव्यय

**57** साहब मंदिर के पीछे खड़े थे।

**Ans** पीछे - संबंधसूचक अव्यय

**58** उसके सर पर बहुत बड़ा गुरमा निकल आया।

**Ans** पर – अधिकरण कारक

**59** वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊँ।

**Ans** जो - समुच्चयबोधक अव्यय

**60** जरूर चले जाइए |

**Ans** जरूर - क्रियाविशेषण अव्यय

**61** माधव व शुक्ल हमारे यहाँ आते थे |

**Ans** यहाँ - क्रियाविशेषण अव्यय

**62** मुख्यमंत्री सबके साथ भोजन लेने लगे।

**Ans** साथ - संबंधसूचक अव्यय

**63** वाह ! बड़ा आनंद है।

**Ans** वाह - विस्मयादिबोधक अव्यय

**64** भूख लगने पर वे दर्जनों पराठे खा गए।

**Ans** पर – अधिकरण कारक

**65** मैंने जिज्ञासा से पूछा, " अब क्या होगा?"

**Ans** अब - क्रिया विशेषण अव्यय

**66** वह उठा और घर चला गया |

**Ans** वह उठा और घर चला गया | - समुच्चयबोधक अव्यय

**67** ऐसा लगता है मानो जंगल में लाल रंग की लपटें उठ रही हों।

**Ans** मानो - समुच्चयबोधक अव्यय

**68** जी हाँ ! आप जा सकते हैं |

**Ans** जी हाँ ! - विस्मयादिबोधक अव्यय

**69** यह कोई आज का काम है।

**Ans** आज - क्रियाविशेषण अव्यय

**70** घड़ी का मुँह दीवार की तरफ कर दो।

**Ans** तरफ - संबंधसूचक अव्यय

**71** लक्ष्मी के गले से बँधी हुई रस्सी खूँटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा ।

**Ans** और - समुच्चयबोधक अव्यय  
बाहर - क्रियाविशेषण अव्यय

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...

72 फूडइंस्पेक्टर ने अचानक लुढ़िया उठाई।

**Ans** अचानक - क्रियाविशेषण अव्यय

73 व्यंग्य बुरी चीज है इसलिए उसे व्यंग्यबाण कहा गया है।

**Ans** इसलिए - समुच्चयबोधक अव्यय

74 इतना कहकर फूडइंस्पेक्टर चुप हो गया और गरदन झुका ली।

**Ans** और - समुच्चयबोधक अव्यय

75 मेरे पास केवल गद्दा बचा था।

**Ans** पास - संबंधसूचक अव्यय

76 मैनेजर ने तुरंत होटलमालिक को बताया।

**Ans** तुरंत - क्रियाविशेषण अव्यय।

77 बड़े बेटे के आने तक वह जागती रही।

**Ans** तक - संबंधसूचक अव्यय

78 हम अभी फाँसी चढ़ेंगे।

**Ans** अभी - क्रियाविशेषण अव्यय

79 आदमी का स्वभाव बदला है या बहुत कम बदला है।

**Ans** या - समुच्चयबोधक

80 1929 के बाद मेरी रुचि पढ़ाई और सामाजिक कार्यों में बढ़ी।

**Ans** के बाद संबंधसूचक अव्यय, और समुच्चयबोधक अव्यय

81 तुम उधर मत देखो।

**Ans** उधर - क्रियाविशेषण अव्यय

82 एक के पति हमार मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव हो।

**Ans** के प्रति - संबंधसूचक अव्यय

83 मैं ड्राइवर को बुला लाया।

**Ans** को - कर्मकारक

84 हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल गया था।

**Ans** हाँ - क्रियाविशेषण अव्यय

**KIRAN TUTORIALS**  
Where Success begins...